



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 1982/साघ 21, 1903

No. 46]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 1982/MAGHA 21, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

1982 का आदेश सं० 1

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1982

कां०सा० 70(अ) —कम्पनी विधि बोर्ड, कम्पनी विधि बोर्ड
न्यायपीठ नियम, 1975 के नियम 2-इ और नियम 3 के साथ पठित,
कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10-इ की उप-
धारा (4-ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस बाबत
जारी किए गए कम्पनी विधि बोर्ड के 1981 के आदेश सं० 5, तारीख
23 जून, 1981 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनु-
मोदन से 1 फरवरी 1982 से अपने निम्नलिखित न्यायपीठों का गठन
करता है —

न्यायपीठ सं० 1

- | | |
|-------------------------|---------|
| (1) श्री के० एस० भटनागर | अध्यक्ष |
| (2) श्री एस० एम० इंगर | सदस्य |

न्यायपीठ सं० 2

- | | |
|-------------------------|---------|
| (1) श्री के० एस० भटनागर | अध्यक्ष |
| (2) श्री एस० सी० मिश्र | सदस्य |

न्यायपीठ सं० 3

- | | |
|-------------------------|---------|
| (1) श्री के० एस० भटनागर | अध्यक्ष |
| (2) श्री एस० चक्रवर्ती | सदस्य |

न्यायपीठ सं० 4

- | | |
|-------------------------|---------|
| (1) श्री के० एस० भटनागर | अध्यक्ष |
| (2) श्री एस० सी० बाफना | सदस्य |

न्यायपीठ सं० 5

- | | |
|-------------------------|---------|
| (1) श्री के० एस० भटनागर | अध्यक्ष |
| (2) श्री पी० के० मलिक | सदस्य |

न्यायपीठ सं० 6

- | | |
|------------------------|---------|
| (1) श्री एस० एम० इंगर | अध्यक्ष |
| (2) श्री एस० सी० मिश्र | सदस्य |

न्यायपीठ सं० 7

- | | |
|------------------------|---------|
| (1) श्री एस० एम० इंगर | अध्यक्ष |
| (2) श्री एस० चक्रवर्ती | सदस्य |

न्यायपीठ सं० 8

- | | |
|------------------------|---------|
| (1) श्री एस० एम० इंगर | अध्यक्ष |
| (2) श्री एस० सी० बाफना | सदस्य |

न्यायपीठ सं० 9

- (1) श्री एस० एम० डुगर सदस्य
(2) श्री पी० के० मलिक सदस्य

न्यायपीठ सं० 10

- (1) श्री एस० सी० मिश्र सदस्य
(2) श्री एस० चक्रवर्ती सदस्य

न्यायपीठ सं० 11

- (1) श्री एस० सी० मिश्र सदस्य
(2) श्री एस० सी० बाफना सदस्य

न्यायपीठ सं० 12

- (1) श्री एस० सी० मिश्र सदस्य
(2) श्री पी० के० मलिक सदस्य

न्यायपीठ सं० 13

- (1) श्री एस० चक्रवर्ती सदस्य
(2) श्री एस० सी० बाफना सदस्य

न्यायपीठ सं० 14

- (1) श्री एस० चक्रवर्ती सदस्य
(2) श्री पी० के० मलिक सदस्य

न्यायपीठ सं० 15

- (1) श्री एस० सी० बाफना सदस्य
(2) श्री पी० के० मलिक सदस्य

कम्पनी विधि बोर्ड और आदेश करता है कि—

(1) यह न्यायपीठें सम्पूर्ण देश में कार्य कर रही कम्पनियों की बाबत, कम्पनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 के अधीन कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष की गई सभी याचिकाओं और आवेदन पत्रों की सुनवाई कर सकती है और उनका अन्तिम रूप में निपटान कर सकती है।

(2) ये न्यायपीठ अपनी बैठकें ऐसे स्थानों पर कर सकती हैं जो आवश्यक समझे जाएं।

[फा० सं० 2/4/82-सी० एल०-5]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

ORDER NO. 1 OF 1982

New Delhi, the 8th February, 1982

S.O. 70(E): In exercise of the powers conferred by sub-section (4B) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with Rule 2(e) and Rule 3 of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975 and in supersession of the Company Law Board's Order No. 5 of 1981 dated the 23rd June, 1981 issued in this behalf, the Company Law Board with the previous approval of the Central Government, hereby constitutes the following Benches of the Company Law Board with effect from 1st February, 1982, namely:—

- | | | |
|-------------|--|----------------------|
| BENCH NO. 1 | (1) Shri K.S. Bhatnagar
(2) Shri S.M. Dugar | Chairman.
Member. |
| BENCH NO. 2 | (1) Shri K.S. Bhatnagar
(2) Shri S.C. Mital | Chairman.
Member. |

- | | | |
|-------------|---|----------------------|
| BENCH NO. 3 | (1) Shri K.S. Bhatnagar
(2) Shri S. Chakravarthi | Chairman.
Member. |
|-------------|---|----------------------|

- | | | |
|-------------|--|----------------------|
| BENCH NO. 4 | (1) Shri K.S. Bhatnagar
(2) Shri S.C. Bafna | Chairman.
Member. |
|-------------|--|----------------------|

- | | | |
|-------------|---|----------------------|
| BENCH NO. 5 | (1) Shri K.S. Bhatnagar
(2) Shri P.K. Mallik | Chairman.
Member. |
|-------------|---|----------------------|

- | | | |
|-------------|--|--------------------|
| BENCH NO. 6 | (1) Shri S.M. Dugar
(2) Shri S.C. Mital | Member.
Member. |
|-------------|--|--------------------|

- | | | |
|-------------|---|--------------------|
| BENCH NO. 7 | (1) Shri S.M. Dugar
(2) Shri S. Chakravarthi | Member.
Member. |
|-------------|---|--------------------|

- | | | |
|-------------|--|--------------------|
| BENCH NO. 8 | (1) Shri S.M. Dugar
(2) Shri S.C. Bafna | Member.
Member. |
|-------------|--|--------------------|

- | | | |
|-------------|---|--------------------|
| BENCH NO. 9 | (1) Shri S.M. Dugar
(2) Shri P.K. Mallik | Member.
Member. |
|-------------|---|--------------------|

- | | | |
|--------------|---|--------------------|
| BENCH NO. 10 | (1) Shri S.C. Mital
(2) Shri S. Chakravarthi | Member.
Member. |
|--------------|---|--------------------|

- | | | |
|--------------|--|--------------------|
| BENCH NO. 11 | (1) Shri S.C. Mital
(2) Shri S.C. Bafna | Member.
Member. |
|--------------|--|--------------------|

- | | | |
|--------------|---|--------------------|
| BENCH NO. 12 | (1) Shri S.C. Mital
(2) Shri P.K. Mallik | Member.
Member. |
|--------------|---|--------------------|

- | | | |
|--------------|---|--------------------|
| BENCH NO. 13 | (1) Shri S.M. Chakravarthi
(2) Shri S.C. Bafna | Member.
Member. |
|--------------|---|--------------------|

- | | | |
|--------------|--|--------------------|
| BENCH NO. 14 | (1) Shri S. Chakravarthi
(2) Shri P.K. Mallik | Member.
Member. |
|--------------|--|--------------------|

- | | | |
|--------------|---|--------------------|
| BENCH NO. 15 | (1) Shri S.C. Bafna
(2) Shri P.K. Mallik | Member.
Member. |
|--------------|---|--------------------|

The Company Law Board further orders that:

(1) The Benches may hear and dispose of finally all petitions and applications made in respect of companies functioning throughout the country before the Company Law Board under the Company Law Board (Bench Rules, 1975.

2) The Benches may hold their sittings at such places as may be deemed necessary.

[File No.2/4/82-CL.V]

1982 का आदेश सं० 2

फा० सं० 71(अ).—कम्पनी विधि बोर्ड, कम्पनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बाबत जारी किए गए 1981 के आदेश सं० 4 तारीख 20 फरवरी, 1981 को अधिक्रान्त करने हुए, आदेश देता है कि जबकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (18-क) के स्पष्टीकरण के अधीन याचिकाएं और धारा 17, 18, और 19 के अन्तर्गत याचिकाओं की कार्यवाही, कम्पनी विधि बोर्ड 8 फरवरी, 1982 के आदेश सं० 1 के अनुसार गठित दो सदस्यीय न्यायपीठों के द्वारा की जाएगी, अन्य सभी मामलों से सम्बन्धित याचिकाओं पर, जिनके अन्तर्गत निदेशनों के जारी किए जाने और अन्तःकायनीय मामले भी हैं, कार्यवाही इन न्यायपीठों के किसी भी एक सदस्य द्वारा की जाएगी।

[फा० सं० 2/4/82-सी० एल०-5]

क० ए० अटनगर, अध्यक्ष
कम्पनी विधि बोर्ड

ORDER NO. 2 of 1982

S.O.71(E).—In exercise of the powers conferred by Rule 4 of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975 and in supersession of the Company Law Board's Order No. 6 of 1981 dated the 23rd June, 1981 issued in this behalf, the Company Law Board hereby directs that while petitions under Explanation to clause (18A) of section 2 and petitions under sections 17, 18 and 19 of the Companies Act, 1956 shall be dealt with by the Two Member Benches of the Company Law

Board constituted vide Company Law Board's Order No. 1 of 1982 dated the 8th February, 1982, petitions in relation to all other matters including issuing of directions and interlocutory matters shall be dealt with by any Member of these Benches sitting singly.

[File No. 2/4/82-CL, V]

**K. S. BHATNAGAR, Chairman,
Company Law Board.**

